



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
 भारत मौसम विज्ञान विभाग
 गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
 उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 20-11-2020

उधम सिंह नगर(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2020-11-20 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2020-11-21	2020-11-22	2020-11-23	2020-11-24	2020-11-25
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	26.0	25.0	25.0	24.0	25.0
न्यूनतम तापमान(से.)	7.0	6.0	7.0	7.0	6.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	75	80	85	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	35	35	45	40	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	8.0	10.0	8.0	8.0	6.0
पवन दिशा (डिग्री)	320	320	320	320	340
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	1	2	2

मौसम सारांश / चेतावनी:

विगत सात दिनों (13 - 19 नवम्बर , 2020) में 0.0 मिमी वर्षा होने व आसमान साफ रहा व कहीं-कहीं आंशिक बादल छाये रहे। अधिकतम तापमान 27.0 से 29.5 डि०से० एवं न्यूनतम तापमान 10.0 से 11.6 डि०से० के बीच रहा तथा वायु में सुबह 0712 बजे सापेक्षित आर्द्रता 89 से 95 प्रतिशत व दोपहर 1412 बजे सापेक्षित आर्द्रता 30 से 41 प्रतिशत एवं हवा 0.8 से 3.9 कि०मी० प्रति घंटा की गति से मुख्यतः पश्चिम-उत्तर-पश्चिम से चली। आगामी पांच दिनों में मौसम साफ रहेगा। अधिकतम एवम् न्यूनतम तापमान क्रमशः 24.0 से 26.0 व 6.0 से 7.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

सामान्य सलाहकार:

कोविड 19 को फैलने से रोकने हेतु, कृषि कार्य के दौरान भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की कोई सम्भावना नहीं है अतः किसान भाई देर से बोई गई धान की कटाई करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
जौ	सिंचित दशा में जौ की बुवाई करें।
बरसीम	आगामी दिनों में वर्षा की कोई सम्भावना नहीं है अतः किसान भाई बरसीम व जिरका की फसल में आवश्यकतानुसार सिंचाई करें।
गेहूँ	गेहूँ की फसल की बुवाई करें। गेहूँ के बीज का उपचार कार्बोक्सिन 2 ग्राम/किग्रा से या टेबूकुनाजोल 1.5 ग्राम/किग्रा बीज की दर से करें।

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मूली	मूली की बुवाई वर्ष भर चलती है। यूरोपियन प्रजातियों हेतु 6-8 किग्रा बीज तथा एशियन प्रजातियों हेतु 10-12 किग्रा बीज की आवश्यकता होगी। मूली के बीज बोने से पहले खेत में गोबर की खाद (सड़ी हुई) का प्रयोग करें। मृदा जांच के अनुसार उर्वरकों का प्रयोग करें। कतार की दूरी 20-25 सेमी रखें तथा बीज बोने पर अंकुरण होने पर अनावश्यक पौधों को उखाड़कर अलगकर पौधों से पौधो की दूरी 8-10 सेमी सुनिश्चित करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	अगर बगीचों की सफाई व जुताई न हुई हो तो इसे शीघ्रताशीघ्र पूर्ण करें। जाला कीट का प्रकोप होने की दशा में जाला साफ करने वाले यंत्र से सफाई करें तथा क्लीनालफॉस 2 मि०ली०/ली० के हिसाब से छिड़काव करें।
लीची	फलदार लीची के पौधों में सिंचाई न करें। क्योंकि इससे बौर निकलने में बाधा उत्पन्न होती है। परन्तु नये पौधे जो अभी फलत में नहीं आये है उसमें सिंचाई की जा सकती है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भेंस	सरदी से बचाव के लिए पशुघर का प्रबंध ठीक से करें। पशुओं के बैठने का स्थान समतल होता चाहिए जिससे उनकी उत्पादन क्षमता प्रभावित न हो तथा इस समय नवजात पशुओं के रख-रखाव पर विशेष ध्यान दें।